NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN No.: L24239HR1984PLC040797

Regd. Off.: Lotus Green City, Sector 23 & 24 Bhiwadi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Daruhera, Rewari-123401

Phone: 91-7419885077, Email:newtimeinfra2010@gmail.com Website: www.newtimeinfra.in

Ref. No.: NIL/BSE/2021 Date: 18th November, 2021

To

The Manager
Listing Department
The Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

BSE Security code: 531959

SUB: Publication in Newspaper of Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2021 of the Company under Regulation 47 of SEBI [LODRL Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement of Financial Result of the Company for the quarter and half year ended on September 30, 2021 published in 'The Financial Express (New Delhi, English Edition) & Jansatta (New Delhi, Hindi Edition) on 18th November, 2021.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You,

For **NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED**

ASHISH Digitally signed by ASHISH PANDIT Date: 2021.11.18 12:19:08 +05'30'

Ashish Pandit DIN: 00139001 Director **FINANCIAL EXPRESS**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

FORM NO. URC.2 Advertisement giving notice about registration

under Part I of Chapter XXI Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014] . Notice is hereby given that in pursuance or sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application be made to the Registrar at RoC-Delhi & Haryana that Bakekneads LLP, a Limited Liability

company limited by shares. 2. The principal objects of the company are as

partnership may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a

To carry on the business of confectionery, pastry shops, bake shops, cafe, boulangerie, etc by setting up stores outlets in Delhi-NCR/ North India and other similar activities.

3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 56-58. Community Centre, East of Kailash, New Delhi, South Delhi, Delhi-110065.

Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi 110019, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office. Name(s) of Applicant

Dated this 15th day of November 2021

Bakekneads LLP

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!

CIRCLE SASTRA CENTRE, DHARAMSHALA Tel:- 01892-223102, E- Mail :- cs8220@pnb.co.in

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas Punjab National Bank/ the Authorised Officer/s of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 12th day of November of the year 2021.

available to redeem the secured assets. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the

The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time

Sr. No.	Name of the	Name of the	Name of the Borrower	Date of Demand Notice	Type of the	Amount outstanding	Name of the
	Branch	Account	(Owner of the property)	Date of possession notice affixed	Possession	as on date of demand notice.	Authorised Officer/s
1.	Dharoon	Sh. Ganesh Sharma			Symbolic	Rs.	Sh. Kartar
		S/O Sh. Bishan Dass and Sh. Jagdish Chand S/O Sh. Bishan Dass	Sharma and Sh. Jagdish Chand	12.11.2021		7,65,815.41	Singh

Description of the property mortgaged:- RM in respect of khata no. 101, khatauni no. 122, khasra no. 519, 521, 526, 539, 564, 570 575, 582, 626, 628, 649, 672, 798, 799, plots-14 land measuring 00-98-87 hms. To the extent of 4728/9887 share i.e. Land measuring 00-47-28 hms situated in Mohal Harian, Mouza Ambal, Tehsil Jawali, Distt. Kangra (H.P.) vide jamabandi for the year 2014-15 in the name of Sh. Ganesh Ram S/o. Sh. Vishnu S/o. Nihala (2) Sh. Jagdish Chand S/o. Sh Vishnu S/o. Sh. Nihala Both R/o. Vill. Harian P.O. Lahru, Tehsil Jawali, Distt-Kangra (H.P.)

2.	Dharoon	M/s Mahadev Traders		09.06.2021	Symbolic		Sh. Kartar
5720		(Prop: Sh. Rakesh Kumar)	Lt. Sh. Tilak Raj	12.11.2021	3800	44,34,489.38	Singh
04hr	n. To the exten	e property mortgaged:-R t of 95/404 share which co					

Sh. Kuldeep Singh Sh. Kuldeep Singh

S/OSh. Chanan Singh S/O Sh. Chanan

Description of the property mortgaged:-RM in respect of land comprised in khata no. 5 min, khatauni no. 9 min, khasra nos. 247, 248 252, 258, 271, 286, 292, 296, 301, plots-9, land measuring 00-85-19 hm to the extent of 1/2 share i.e. Land measuring 00-42-59 hm situated in Mohal Swarka, Mouza Kothibanda-ii, Tehsil Jawali, Distt. Kangra (H.P.) vide jamabandi for the year 2011-12 for construction of poultry farm in the name of Sh. Kuldeep Singh S/o Sh. Chanan Singh S/o Sh. Sudama R/o VPO Mastgarh, Tehsil Jawali, Distt. Kangra, H.P.

12.11.2021

4.		Sh. Shakti Parshad Sharda S/O Sh. Durga	Sh. Shakti Parshad S/O Sh. Durga Dass	19.06.2021 12.11.2021	Symbolic	Rs. 10,66,121.00	Sh. Kartar Singh
	Dass and Sh. Aditya Sharda S/O Sh. Shakti Parshad				а в	THE AMERICAN	e control

Description of the property mortgaged:- reg. Mortgage bearing khata no. 98 min, khatauni no. 138 min, khasra no. 1025/183, land measuring 0-01-15 hm situated at Mohal Sujanta, Mouza Punder, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra, H.P. Vide jamabandi for the year 2014-2015 along with superstructure built thereon is owned & possessed by Sh. Shakti Parshad S/o Sh. Durga Dass R/o Village Sujanta, PO Jaunta Tehsil Nurpur, Distt. Kangra, H.P.

5.	Dharoon	Smt. Upesh W/O Sh.	Sh. Pratap Singh	01.06.2021	Symbolic	Rs. 15,97,754.32	Sh. Kartar Singh
	January Charles Co. A.	Jeevan Singh		12.11.2021			
hm to		property mortgaged:-RM 1/6 share which comes to ear 2011-12.					
Det	47 44 000	4			Vaid	as Olerah Austra	deed Office

Date: 17.11.2021 Kartar Singh Authorised Officer Place: Dharamshala Punjab National Bank

चंजाब नैशनल बैंक 💽 punjab national bank

Circle Sastra Centre Circle Office Meerut-West, LIC Building Prabhat Nagar Saket Meerut- 250002

Dharoon

Whereas, been the Authorized Officer/s of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002, on the The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon. The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention

isi	invited to provisions of sub-section (8) of section	n 13 of the Act in respect of time available to redeem the	e secured asse	ts.
SI. No.	(a) Name of Branch (b) Name of Account (c) Name of Borrowers/Guarantor/Mortgager & Address	Description of property Mortgage	(a) Demand notice Date (b) Symbolic Possession date	Outstanding as on date of Demand notice
1.	(a) Branch: Kankerkhera	All that part and parcel of the property consisting of, Bijender		Rs. 21,26,043.02
	(b) Sh. Bijender Singh S/o Om Prakash (c) Borrower: Bijender Singh S/o Om Prakash, H.No. 122, Sri Ram Vihar, Shobha Pur, Near Byepass Rohta Meerut.	Singh S/o Om Prakash, House No. 122, Sri Ram Vihar, Shobha Pur near byepass Rohta Road, Meerut- 250221, sale deed dt. 17.02.2006, Sr. No. 704 area 73.16 Sq. mtr. minjumle Khasra No. 916/4 bounded as under: North: 37'-6" Plot of Komal Singh & Arun Gill, South: 37'-6" Land of other, East: 21'-0" Plot of Komal Singh, West: 21'-0" Rasta 20'-0" wide.	(b) 12.11.2021	as on 31.03.2021 + Further intt. + charge w.e.f. 01.04.2021 and deduction of recovery if any after 31.03.2021
2.	(a) Branch: Kankerkhera	All that part and parcel of the property consisting of- 1. Sh.	(a) 05.06.2021	
	(c) Borrower: Sh. Mukesh Thakur S/o Sh. Dharam	Mukesh Thakur S/o Sh. Dharam Veer Singh, Shop no-22, First Floor C-3 Pocket T, Pallavpuram, Meerut, Sale deed dt. 23.01.2017, Sr. No. 616, Area 16.72 sq. mtr bounded as under: North: 12ft/open to sky, South: 12 ft/ Property of Smt. Shakuntala,	(0) 12.11.2021	as on 31.03.2021 + Further intt. + charge w.e.f. 01.04.2021 and deduction of

East: 15 ft/ Gallery, West: 15 ft/ Shop no-21.

Smt. Reena Thakur W/o Mukesh Thakur, Shop no-21, First Floor C-3, Pallavpuram Phase-2, Pargana Daurala, Tehsil Sardhana Meerut, Sale deed dt. 21.05.2018 Bahi No. 1, Zild No. 8081, Pg No. 1 to 20, Sr. No. 7620 bounded as under: North: 10 ft 4 inch/ Gallery, South: 10 ft 4 inch/ shop of Smt. Shakuntala, East: 15ft/ Shop no. 22, West:

15 ft/ Shop No. 20. 3. (a) Branch: Kankerkhera (b) Smt. Geet Vinod W/o Sumit Vinod

(c) Borrower: Smt. Geet Vinod W/o Sumit Vinod & Sh. Sumit Vinod S/o Late Sh. Subodh Kumar Vinod. G-6, Saraswati Tower, Pandev Nagar, Meerut. 4. (a) Branch: Kankerkhera

(b) Sh. Abhishek Bansal S/o Shri Rakesh Kumar (c) Borrower: Shri Abhishek bansal S/o Shri Rakesh Kumar & Smt. Rachna Bansal W/o Shri Abhishek Bansal, R/o H.No. 208/2, Phase-II, Somdut Vihar Colony District Meerut.

(a) Branch: Kankerkhera (b) Sh. Sachin Kumar S/o Sh. Jai Ram Singh (c) Borrower: Sh. Sachin Kumar S/o Sh. Jai Ram Singh, House No. D-41 Block, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut.

Date: 17.11.2021

Date: 18.11.2021

financialexp.epar

All that part and parcel of the property consisting of- 1. Sh. (a) 01.09.2021 Sumit Vindo S/o Late Sh. Subodh Kumar Vinod & Smt. Geet Vindo W/o Sumit Vinod, residential Flat G-6, Ground Floor, Saraswati Tower, Nagla battu, Yadgarpur, Meerut, area 148.64 Sq. Mtr bounded as under: North: 9 mtr wide road, South: Property of others, East: Property of other, West: Flat No. G-5. Hypothecation of Stocks, Book Debts & All Other items. All that part and parcel of the property consisting of-In the name (a) 05.06.2021 of Abhishek Bansal, R/o 208/2, Phase-II Somdutt Vihar Colony District Meerut, Prop. Sale Deed 26.09.2014, Bahi No. 1, Zild (b) 12.11.2021

No. 10251, Page No. 397 to 426, Sr. No. 8969, area 102.77 sq.

mt. house no. 208/2, ground Floor, Somdutt Vihar, Garh Road, Village Saraikaji, bounded as below: North: 66'3"/ House No. 209/1, Sh. M.D. Sharma, South: 66'3"/ House no. 208/1, Sh. Sharma ji, East: 20'-00'/ Road 12.19 mtr wide, West: 20'0"/ Property of other. All that part and parcel of the property consisting of- Sh. Sachin (a) 05.06.2021 Kumar S/o Sh. Jai Ram Singh, House No. D-41, Block, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut, Sale deed dt. 18.11.2000, Sr. No. (b) 12.11.2021

8260, area 150 Sq. mtr. Bounded as under: North: 15.00 mtr/ Plot No. D-42, South: 15.00 mtr/ Plot No. D-40, East: 10.00 mtr/ Plot No. D-10. West: 10.00 mtr/ Road 9.00 mtr wide.

contracted rate w.e. 01.04.2021 and deduction of recover f any after 31.03.202

Place: Meerut Authorised Office Punjab National Bank

OSBI

Core Banking Technical Operations Department, State Bank of India,

Global IT Centre, Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400614 CORRIGENDUM - 2

Please refer the RFP no. SBI/GITC/Core Banking-Tech Operation/2021/2022/799 dated 20.10.2021. Corrigendum - 2 "for extension of bid submission date" is available under 'Procurement news' at Bank's Website, https://www.sbi.co.in and e-Procurement agency portal https://etender.sbi/SBI/

Place: Navi Mumbai Date: 18.11.2021

TATA Contact Add.: 7th Floor Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi -110055 India.

CB - Tech Operations Department

Tata Capital Financial Services Limited

NOTICE

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED DEMAND

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

A Notice is hereby given that the following obligors/legal representatives/legal heirs (BORROWERS) have defaulted in the repayment of principal, along with interest and other charges, obtained from Tata Capital Financial Services Limited (TCFSL). The below mentioned Loan Accounts have been classified as Non-Performing Assets, as per RBI guidelines pursuant to the default in repaying TCFSL's dues TCFSL, through its Authorised Officer, in pursuance to the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The ACT) has issued below mentioned Statutory Notices under Section 13 (2) of the Act calling upon the Borrowers to discharge the said outstanding amount, along with future interests and costs, within 60 days of the notices failing which the TCFSL shall exercise all or any of the rights detailed u/s 13(4) of the Act including enforcement of the security interest created by the Borrowers in favour of the TCFSL over the properties described below.

S. No.	Nos.	Notice Date	Outstanding Amount As Per	
			NPA Date	Demand Notice
1	I I CIAN I	 M/s Atul Chemist, Through Its Proprietor, House Number 86, Krishna Puri, Mathura, Uttar Pradesh-281001 Arun Sharma, House Number 86, Krishna Puri, Mathura, Uttar Pradesh-281001 Shobhit Gupta, On Highway, Nh-2, Radhika Vihar Phase-II, Mathura Bangar, Krishna Nagar, Mathura, Uttar Pradesh-281004, Also At: 7-B, Radhika Vihar, Mathura, U.P. Anju Sharma, House Number 86/A, Krishna Puri, Mathura, Uttar Pradesh-281001 M/s Glamson Healthcare, Through Its Partner K-6, Upsidc, Industrial Area Site-B, Opposite Refinary Gate Number 1, Nh 2, Village Aganpura, Mathura, Uttar Pradesh-281005 	16-11-2021 06-01-2021	Rs. 80,89,709/-

DETAILS OF SECURED ASSETS - SCHEDULE A ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NUMBER K-6. AREA ADMEASURING 59: SQUARE METERS, INDUSTRIAL AREA, SITE B, UPSIDC, MATHURA, UTTAR PRADESH, MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN LEASE DEED DATED 12.04.2017, EXECUTED IN FAVOR OF M/S GLAMSON HEALTHCARE. BOUNDED AS: ON OR TOWARDS THE EAST BY : PLOT NUMBER K-7, ON OR TOWARDS THE WEST BY : PLOT NUMBER K-5, ON OR TOWARDS THE NORTH BY: 12 MTF WIDE ROAD NUMBER 23 ON OR TOWARDS THE SOUTH BY: PLOT NUMBER J-12.

With a view to ensure efficacious service of the abovementioned Demand Notices, we are hereby effecting service of the said Notices vide the public notice. The aforesaid Borrowers are hereby called upon u/s 13(2) of the Act to discharge the above mentioned liabilities within 60 days of this notice failing which the TCFSL will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the Act. Pertinently, the Borrowers are also put to notice that as per the terms of Section 13(13) of the Act, they shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets. Place: Uttar Pradesh **Authorised Office**

Date: 16/11/2021 Place: New Delhi

FORM NO. 5 DRT/LKO **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL** 600/1 University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow - 226 007 (Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION Date: 21.09.2021 O.A. No. 23/2020 (Summons to Defendant Under Section 19(4), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

BANK OF INDIA .APPLICANT M/S SHWETA TRADING COMPANY AND OTHERS ..DEFENDANTS To, Defendants: 1. M/s Shweta Trading Company, A-6, Garima Garden, District - Ghaziabad 201005

O.A. No. 23/2020

through its sole proprietor Smt. Shweta Gautam. 2. Smt. Shweta Gautam wife of Sri Romeshwar Gautam, r/o Flat No.A-61/2, Ground Floor, Plot No.61, Shalimar Garden Extension-2, District -Ghaziabad 201005 & ALSO AT: Flat No.201, A-157, Shalimar Garden Extension-2, District - Ghaziabad

3 Sri Romeshwar Gautam son of Late Sri Giriraj Gautam, r/o Flat No.A-61/2, Ground Floor, Plot No.61, Shalimar Garden Extension-2, District -Ghaziabad 201005 & ALSO AT: Flat No.201, A-157, Shalimar Garden Extension-2, District - Ghaziabad 201005 & ALSO AT: Plot No.1, Part (MB01), Khasra No.572 M, Block - MB, Garima Garden, Village Pasonda, Pargana - Loni, District - Ghaziabad.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorised agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 03.02.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Registrar

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

FORM NO. 5 DRT/Lkg **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW** (Jurisdiction - Part of U.P.)

600/1 University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow - 226 007 SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION O.A. No. 1576/2019

(Summons to Defendant Under Section 19(4), of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993) O.A. No. 1576/2019

BANK OF INDIA ..APPLICANT M/S GURU NANAK ENTERPRISES & OTHERS

.DEFENDANTS 1. M/s Guru Nanak Enterprises through its proprietor Shri Major Singh having its principal

2. Shri Major Singh son of Shri Teja Singh resident of Villag Bebha Farm, Post-Colony,

place of business at Shed No.2, Shop No. 50, Naveen Mandi Sathal, Pilibhit.

Also at: 2, Vaivaha Kanja Haraiyya, Tehsil Pilibhit-262201. 3. Shri Gurmeej Singh son of Shri Teja Singh resident of Villag Bebha Farm Post-Colony, District Pilibhit-262001

4. Shri Sudhir Tewari son of Late Ram Dularey Tiwari resident of 53, Godawari Estate Also at: 597/535, Biharipur, Civil lines Bareily 243003. In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in Two

sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorised agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 22.12.2021 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

AVIOM INDIA HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED

CIN: U65993DL2016PTC291377

REGD. OFFICE: 83 First Floor, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057

Extract of unaudited results for the quarter and period ended September 30, 2021

('in Lakhs)

S.No.	Particulars	Quarter Ended	Period	Ended	Year Ended
		September 30, 2021 (Unaudited)	September 30, 2021 (Unaudited)	September 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	3,285.79	6,287.64	3,055.44	8,729.50
2.	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	(61.27)	(39.50)	177.53	(33.02)
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	(61.27)	(39.50)	177.53	(33.02)
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	(79.01)	(70.44)	127.42	(77.13)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(77.92)	(68.25)	122.10	(81.46)
6.	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of `10 each)	3,430.56	3,430.56	3,430.56	3,430.56
7.	Reserves Excluding Revaluation Reserves	6,854.10	6,854.10	5,136.32	4,931.62
8.	Net worth	10,249.74	10,249.74	8,530.35	8,334.10
9.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	50,707.86	50,707.86	28,971.34	40,898.53
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares	(4)	((2))	848	141
11.	Debt Equity Ratio	4.93	4.93	3.38	4.89
12.	Earnings per share (EPS) (in `) (a) Basic EPS (b) Diluted EPS	(0.70) (0.27)	(0.53) (0.21)	0.97 0.37	(0.59) (0.22)
13.	Capital Redemption Reserve	2040			
14.	Debenture Redemption Reserve		- 1		·

Notes:

Sh. Kartar

Singh

Rs.

38,27,335.00

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

recovery if any afte

31.03.2021

Rs. 56,50,465.38

as on 31.03.2021

+ Further intt. +

charge w.e.f.

01.04.2021 and

deduction of

ecovery if any after

31.03.2021

Rs. 54,38,436.00

vith Further intt. at

contracted rate

31.03.2021 and

deduction of

recovery if any afte

31.03.2021

Further intt. at

Symbolic

- The above unaudited results have been reviewed and approved by the Board of Directors at its meeting held on Tuesday, the 16th day of November, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the results and issued an unqualified report.
- The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.

The above is an extract of the detailed format of quarterly and half year ended financial results filed with the

Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the quarterly and half year ended financial results are available on the Investor Corner Section

- of our website www.aviom.in For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
- Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on Investor Corner Section of our website www.aviom.in
- Previous quarters/period/year ended figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to confirm to the current quarter/period presentation.

For Aviom India Housing Finance Pvt Ltd

Sd /-Kaajal Aijaz Ilmi (MD & CEO) (DIN:01390771)

Place : New Delhi Date : November 16, 2021

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED CIN: L24239HR1984PLC040797

Regd. Off.: Lotus Green City, Sector 23 & 24 Bhiwadi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Daruhera, Rewari-123401 Tel: + 91-7419885077 | Email: newtimeinfra2010@gmail.com | Website: www.newtimeinfra.in

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2021 (Rs. in Lakhs)

STANDALONE CONSOLIDATED Quarter Ended Quarter Ended **Particulars** Half Year Ended Year Ended Half Year Ended Year Ended 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 31.03.2021 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 31.03.2021 (Un- Audited) (Un- Audited) (Un- Audited) (Un- Audited) (Audited) (Un- Audited) (Un- Audited) (Un- Audited) (Un-Audited) (Un- Audited) (Audited) 0.10 Total Income from operations 0.10 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional (245.18)(156.16)(127.85)(111.35)(412.05)and/or extraordinary items) (123.17)(122.02)(91.42)(375.88)(135.87)(263.72)(194.17)Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) (401.89)(123.17)(122.02)(81.26)(245.18)(146.00)(365.72)(135.87)(127.85)(101.19)(263.72)(184.01)Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) (123.17)(122.02)(81.26)(245.18)(146.00)(365.72)(135.87)(127.85)(101.19)(263.72)(184.01)(401.89)5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and (143.07)(123.17)(122.02)(81.26)(146.00)(365.43)(122.13)(201.85)(323.98)(580.48)other Comprehensive Income (after tax)) (245.18)(331.23)1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs.1/- each) 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 1,869.87 9,119.55 8 Earnings per Share (of Re 1/- each) (0.07)(0.07)(0.05)(0.14)(0.09)(0.21)(0.07)(0.12)(0.08)(0.19)(0.19)(0.34)

- Notes to financial results: The above Un-Audited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 16th November, 2021 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at
- their meeting held on 16th November, 2021. 2 In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Oblitgations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory auditor have performed an audit of the standalone and consolidated financial results of the Company for the Quater and Half Year ended 30th September, 2021.
- This statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of
- regulations of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended). Other Comprehensive Income includes net movement of re-measurement of defined benefit plans and alike adjustments.
 - Previous year figures have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to confirm to the current Period presentations.
- The Company has entered into Memorandum of Undertaking on 15 February 2021 to dispose of its investment in its wholly owned subsidiary Lotus Buildtech Limited ("Lotus Buildtech"). Accordingly the Company
- has classified Lotus Buildtech as held for sale and has shown loss related to Lotus Buildtech under discontinued operations in these financial results.
- As the Company has one Operating Segment and disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable The Company has opted to submit standalone and Consolidated financial results for the quarter, pursuant to the Regulation 33 of SEBI (Listing Oblitgations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2021 is available on the website of the Company https://www.newtimeinfra.in/ and the website of BSE Ltd

For NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED Sd/-

Ashish Pandit (Director) DIN: 00139001

New Delhi

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं:- 0151-2226902, 2226905 Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org क्रमाक / यंत्रालय / 2021-22 / 166 दिनांक 12.11.2021

(ए.आर.सी ई-निविदा सूचना सं 06/2021-22)

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाने एवं नाला सफाई कार्य हेत् बीकानेर नगर निगम की 05 निजी एक्सकेवेटर कम लोडर मशीनें कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 02 वर्ष के लिये वार्षिक दर पर अनुबंध हेत् दिनांक 06.12.2021 तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बंधित विस्तृत विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, http.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा की अनुमानित लागत:- 1.40 करोड UBN No :- DLB2122SLOB18764

राज.संवाद / सी / 21 / 8479 नगर निगम बीकानेर

हारी हाउसिंग फाइनास लिमिटेड लयः ०१, कम्युनिटी सेन्टर, बसन्त लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

फोन: 011-49267000, टोल फ्री नम्बर: 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@herofin.com वेबसाईटः www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148 सम्पर्क का पताः बिल्डिंग नं. ०७, २रा तल, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

(प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना

जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर ब्याज, नीचे वर्णित तिथि से दंड ब्याज, चार्जेज, लागतों आदि के लिये हीरो हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की

ऋण खाता सं.	देनदारों/सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम	मांग सूचना तिथि/ मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि
HHFLUCLAP 19000002374	श्री साई नाथ फिलिंग सेंटर (द्वारा उसके प्रॉप्राईटर), अतुल कुमार, प्रीति सिंह, महेन्द्र कुमार	28.7.2021 रु. 28,74,549/- दिनांक 27.7.2021 को	12.11.2021

प्रतिभत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः मद सं. 1: सम्पत्ति फ्लैट नं. 404, चौथा तल. गोयल एन्क्लेव-III, प्लॉट नं. 359, गणेशपुर, रहमानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का सभी भाग तथा हिस्सा। **मद सं.** 2: फ्लैट नं. 405, चौथा तल, गोयल एन्क्लेव-III, प्लॉट नं. 359, गणेशपुर, रहमानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का सभी भाग तथा हिस्सा। (दोनों मद सं. 1 तथा मद सं. 2 एक संयुक्त सम्पत्ति है जिसका कुल क्षेत्रफल 134.75 वर्ग मी. है।)

स्थान: लखनऊ, **तिथि**: 18.11.2021 प्राधिकृत अधिकारी, हीरो हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिये

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)]

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi-110058 having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Gani, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated 27-02-2019, calling upon the borrower Sh. Anar Singh S/o. Sh. Hori Lal, R/o. D-754/7, Khasra No.3/19, Nathu Pura Delhi-110084, and Sh. Anar Singh S/o. Sh. Hori Lal, D-664, Nathupura, Delhi-110084, and calling upon the Mortgagor Smt. Asha W/o. Sh. Anar Singh R/o. D-754/7, Khasra No. 3/19, Nathupura, Delhi-110084, to repay the amount mentioned in the notice being ₹9,54,151/- (Rupees Nine Lakhs Fifty Four Thousand One Hundred Fifty One Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in

The above mentioned borrower, mortgagor& surety having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower, mortgagor& surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 16th day of

The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹9,54,151/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of The borrower, mortgagor & surety attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial

realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

The property under All the part and parcel of the built up property withroof consideration is built up | rights upto sky rights area measuring 41sq. yds., i.e property with roof rights 34.2801 sq.mtrs. constructed ground floor, situated area measuring 41 sq. in the abadi of extended Lal Dora of Village Nathupur Burari, Delhi-110084. Falling Under the Registration of Sub-Registrar I, Delhi.

Bounded as under:-East : Other's Property, West : Other's Property. North: Road 15 ft. Wide,

(HARISH SHARMA) **AUTHORISED OFFICER** THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. **HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE** PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. Phone No. 9013568419, 9810487548.

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (मध्य)-I

निकट युजीआर एवं वीपीएस रामलीला मैदान, जेएलएन मार्ग, नई दिल्ली-110002 "कोरोना रोकें: मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें" प्रैस एनआईटी सं. 43(2021-22)

	क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. में)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति व अंतिम तिथि⁄समय
		ईई(मध्य) I के अंतर्गत एसी-20 में वार्ड 84, चांदनी चौक तथा आस-पास के क्षेत्रों में 16 नग नये गहरे ट्यूब वेल्स का बोरिंग।	4753540.00	16.11.2021 06.00 बजे अप. से निविदा आई.डी. 2021_DJB_211101_1	3.00 बजे अप. तक
	0.	ईई(मध्य) I केअंतर्गत एसी-20 में वार्ड-83, सिविल लाइन्स तथा आस-पास के क्षेत्रों में 10 नग नये गहरे ट्यूब वेल्स का बोरिंग	29,71,438.00	2021_DJB_211101_2	1.12.2021 के 3.00 बजे अप. तक
I	इस संव	र्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.d	elhi.gov.in पर	देखें।	हस्ता.
1	क्ती उक्त	ੂ ਅੰ (ਤੜ੍ਹ) ਤਾਸ਼ ਤਮੀ			(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

(प्रताप सिंह) पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2021-22/600 एईई (एम)-20

कोरोना रोकें: ''अपना हाथ स्वच्छ रखें, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः अति. मुख्य अभियंता (एम)-II, कमरा सं. 102, जल सदन, शिव मंदिर मार्ग, लाजपत नगर. नई दिल्ली-110024

ईमेलः acem11.djb@gmail.com, फोनः 011-29810956 एनआईटी सं. 03/एसी-48 (2021-22)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि (रु. में)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध से निविदा प्राप्ति की अंति तिथि∕समय
	ईई(एम)-48 के अंतर्गत क्वा. नं. 81 से 112, 273 से 336, 241 से 272, 145 से 176, सेव5, पुष्प विहार में अंत्यत गाद युक्त तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के विस्थापन द्वारा सीवरेज प्रणाली का सुधार	3440889/-	2021_DJB_211034_2 16.11.2021	29.11.2021 के 3.00 बजे अप. तक
	ईई(एम)-48 के अंतर्गत डा. अम्बेदकर नगर कंस्टीच्युएंसी में सेक-3, पुष्प विहार में ब्लॉक नं. 25 से 28 तथा 35 से 39 तक में अंत्यत गाद युक्त तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के विस्थापन द्वारा सीवरेज प्रणाली का सुधार	3964031/-	2021_DJB_211034_3 16.11.2021	29.11.2021 के 3.00 बजे अप. तक
	ईई(एम)–48 के अंतर्गत सेक 7, पुष्प विहार में क्वा. नं. 1301 से 1480 तक में अंत्यत गाद युक्त तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के विस्थापन द्वारा सीवरेज प्रणाली का सुधार	4300722/-	2021_DJB_211034_4 16.11.2021	29.11.2021 के 3.00 बजे अप. तक
	ईई(एम)-48 के अंतर्गत सेक्. 4, पुष्प विहार में ब्लॉक नं. 1 से 20 तथा 60 से 67 तक में अंत्यत गाद युक्त तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के विस्थापन द्वारा सीवरेज प्रणाली का सुधार	4672652/-	2021_DJB_211034_5 16.11.2021	29.11.2021 के 3.00 बजे अप. तक

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी (आर. के. अग्रवाल

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 603 (2021-22) कार्यपालक अभियंता (एम)-48

REMI SECURITIES LIMITED

Corporate Identification Number ("CIN"): L65990MH1973PLC016601 Registered Office: Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai – 400 063, Maharashtra, India. Tel No. +91-22- 40589888; Email: rs igrd@remigroup.com; Website: www.remigroup.com

PUBLIC NOTICE

We, the undersigned on behalf of Remi Securities Limited ("the Company") hereby declare that

the Company is registered under the Companies Act, 1956, originally incorporated as "Balaji Investments Limited" as a Public Limited company under the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated June 16, 1973 and Certificate of Commencement of Business dated September 11, 1973, issued by Registrar of Companies, , Maharashtra. Subsequently, name of the Company was changed to "Remi Securities Limited" vide fresh certificate of incorporation dated August 18, 1992 issued by Registrar of Companies, Maharashtra: the Registered Office of the Company is situated at Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai – 400 063,

the Company is registered with the Reserve Bank of India as Non-Banking Financial Company (NBFC). The Company is having a Certificate of Registration bearing number 13.00283 dated 6th March, 1998, issued by the Reserve Bank of India under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. The Company is classified as Loan and Investment Company (Non-Accepting Deposits) as NBFC (Non-Deposit), and is duly authorized by Board of Directors of the Company,

hereby give notice about the intention to sell / transfer of ownership / control on behalf of the Company and all the Shareholders (hereinafter referred to as "the transferors"). b) Pursuant to delisting offer proposed by following members of Promoter and Promoter Group vide initial public announcement dated

August 23.2021 (the "**Delisting Offer**") I. Bajrang Finance Limited ("Promoter Acquirer 1"), having its registered office at Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon

(East), Mumbai – 400 063, Maharashtra, India ii. K K Fincorp Limited ("Promoter Acquirer 2"), having its registered office at Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East),

Mumbai – 400 063. Maharashtra, India iii. Remi Finance and Investment Private Limited ("Promoter Acquirer 3"), having its registered office at Plot No.11, Cama Industrial

Estate, Goregaon (East), Mumbai – 400 063, Maharashtra, India iv. Remi Sales and Engineering Limited ("Promoter Acquirer 4") having its registered office at Plot No.11, Cama Industrial Estate,

Goregaon (East), Mumbai – 400 063, Maharashtra, India (Promoter Acquirer 1, Promoter Acquirer 2, Promoter Acquirer 3 and Promoter Acquirer 4 are hereinafter collectively referred to as

"the Promoter Acquirers" for the Delisting Offer) v. The members of the Promoter & Promoter Group are duly authorised and hereby given this notice about their intention to acquire 10,21,500 Equity Shares representing 51.08%. of the paid up equity share capital of the Company that are held by public shareholders of the Company pursuant to Delisting Offer in accordance with SEBI Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021

(the "Delisting Regulations") The reasons for such acquisition of shares by the Promoter Acquirers in terms of the Delisting Offer are hereunder: a. To obtain full ownership of the Company by the Promoter & Promoter Group which will in turn provide increased financial flexibility to support the Company's business and financial needs, including but not limited to exploring new financing structures including

financial support from the Promoter Group. b. The Delisting Offer will help in cost savings and allow the management to dedicate more time and focus on the Company's business as reduction in time and requirement of resources dedicated to listing compliances; and;

c. The Delisting Offer will provide the Public Shareholders an opportunity to realize immediate and certain value for their Equity Shares at a time of elevated market volatility In case any party i.e. shareholder/ creditor or any other entity having any objection in aforementioned acquisition of shares by the

Promoters Acquirers, they may submit their objection in writing to the Company at their registered office or to the Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India,, 3rd floor, Mumbai Central, Mumbai 400008 within 30 days from the date of publication of This Notice is being given pursuant to RBI Circular DNBS (PD) CC No. 11/02.01/99-2000 dated November 15, 1999 as amended by

Circular No. DNBS (PD) CC No. 12/02.01/99-2000 dated January 13, 2000 and further amended by Circular No. DNBS (PD) CC No. 63/02.002/2005-06 dated January 24, 2006 and DNBS (PD) CC No. 82/03.02.02/2006-07 dated October 27, 2006 and DNBR (PD) CC. No. 065/03.10.001/2015-16 dated July 09, 2015 and other relevant regulations. For and on behalf of Remi Securities Limited

Sd/- Sanjay Maheshwari Whole Time Director	
For and on behalf of Bajrang Finance Limited	For and on behalf of K K Fincorp Limited
(Promoter Acquirer 1)	(Promoter Acquirer 2)
Sd/-	Sd/-
Nirmal Murarka	Shiv Kumar Sharma
Director	Whole Time Director
For and on behalf of Remi Finance and Investment Private Limited	For and on behalf of Remi Sales and Engineering Limited
(Promoter Acquirer 3)	(Promoter Acquirer 4)
Sd/-	Sd/-
Mahabir Prasad Sharma	Sandeep Kasera
Director	Whole Time Director

Place : Mumbai Date: November 17, 2021.

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN: L24239HR1984PLC040797

पंजी. कार्यालय: लोटस ग्रीन सिटी, सेक्टर 23 एवं 24 भिवाड़ी, अलवर बाईपास, 75 मी. रोड, धारुहेरा, रेवारी-123401 फोन: +91-7419885077 | ईमेल: newtimeinfra2010@gmail.com | वेबसाईट: www.newtimeinfra.in

30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित

वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

क्रम	विवरण	8	स्टैंडएलान					समेकित					
सं.		समाप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त छमाही समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	
		30.9.2021 अनंकेक्षित	30.6.2021 अनंकेक्षित	30.09.2020 अनंकेक्षित	30.9.2021 अनंकेक्षित	30.9.2020 अनंकेक्षित	31.3.2021 अंकेक्षित	30.9.2021 अनंकेक्षित	30.6.2021 अनंकेक्षित	30.09.2020 अनंकेक्षित	30.9.2021 अनंकेक्षित	30.9.2020 अनंकेक्षित	31.3.2021 अंकेक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	-	-	9 - 9			-	-	-	-		0.10	0.10
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(123.17)	(122.02)	(91.42)	(245.18)	(156.16)	(375.88)	(135.87)	(127.85)	(111.35)	(263.72)	(194.17)	(412.05)
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(123.17)	(122.02)	(81.26)	(245.18)	(146.00)	(365.72)	(135.87)	(127.85)	(101.19)	(263.72)	(184.01)	(401.89)
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(123.17)	(122.02)	(81.26)	(245.18)	(146.00)	(365.72)	(135.87)	(127.85)	(101.19)	(263.72)	(184.01)	(401.89)
5	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(123.17)	(122.02)	(81.26)	(245.18)	(146.00)	(365.43)	(122.13)	(201.85)	(143.07)	(323.98)	(331.23)	(580.48)
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 1/- प्रति)	1703.46	1703.46	1703.46	1703.46	1703.46	1703.46	1703.46	1703.46	1703.46	1703.46	1703.46	1703.46
7	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)				-		1869.87				-		9119.55
8	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का)	(0.07)	(0.07)	(0.05)	(0.14)	(0.09)	(0.21)	(0.07)	(0.12)	(0.08)	(0.19)	(0.19)	(0.34)

1. उक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की 16 नवम्बर, 2021 को ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई तथा तदुपरांत 16 नवम्बर, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित

2. सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 की अपेक्षाओं के अनुसार सांविधिक अंकेक्षक ने 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये कम्पनी के स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट की है।

3. इन विवरणों को सेबी (सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियमनों के अनुसार उसके अंतर्गत संबंधित विनियमनों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

4. अन्य व्यापक आय में परिभाषित लाभ योजनाओं तथा समान समायोजनों के पुनर्मापन के शुद्ध प्रवाह शामिल हैं।

5. उसे चालू अवधि के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप बनाने के लिये जहाँ भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं। 6. अपनी सम्पूर्ण स्वामित्व की सहायक लोटस बिल्डटेक लिमिटेड (''लोटस बिल्डटेक'') में अपने निवेशों का निपटान करने के लिये 15 फरवरी, 2021 को कम्पनी ने मेमोरैण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में प्रविष्ट किया है।

तदनुसार, कम्पनी ने लोटस बिल्डटेक को बिक्री के लिये धारित के रूप में वर्गीकृत किया है तथा लोटस बिल्डटेक से संबंधित हानि को इन वित्तीय परिणामों में अवरुद्ध प्रचालनों के अंतर्गत दर्शाया है।

7. चूंकि, कम्पनी के पास एक ही प्रचालन खंड है अतः इंड एएस 108-प्रचालन खंड के अंतर्गत उद्घाटन लागू नहीं है। 8. सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुपालन में कम्पनी ने तिमाही के लिये स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों को जमा करने का चयन किया है।

9. 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाईट https://www.newtimeinfra.in तथा बीएसई लि. के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिये तिथि : 16/11/2021 स्थान : नई दिल्ली

आशीष पंडित (निदेशक) DIN:00139001

कार्यालय अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजकीय जनाना चिकित्सालय परिसर,

Mob. 9602097030 मोरी चार बाग - भरतपुर 321 001 (राज.) क्रमांक/ M&H/2021-22/2775 दिनांक : 09/11/202

निविदा सूचना संख्याः 20/2021-22 राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्य जिला करौली रु. 340.00 लाख के निर्माण कार्य हेत राजस्थान सरकार के समकक्ष उपयक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज सरकार/ केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/ रेल्वे इत्यादि में सिविल कार्यों हेतु पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र ंई-प्रोक्यरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट www.dipronline.org htttp://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है NIB code MHS2122A1825 and UBN is: MHS2122WSOB02791.

DIPR/C/11418/2021

(एल०के० अग्रवाल अधिशाषी अभियन्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतप्

eemhbharatpur@gmail.com

ee-mh-bharatpur@gov.ir

रोलाटेनसे लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः भूखण्ड सं. 73–74, फेज–।।।, औद्योगिक क्षेत्र, धारूहेड्रा, जिला–रेवाड्री, रेवाड्री, हरियाणा—123106, दूरभाष सं. : 01274—243326, 242220 ई—मेलः cs.rollatainers@gmail.com, वेबसाइट : www.rollatainers.in

सीआईएन : L21014HR1968PLC004844,

50वी वाषिक सामान्य बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र

यह शद्धिपत्र मंगलवार 30 नवंबर 2021 को प्रातः 10.30 बजे रोलाटेनर्स लिमिटेड की, कंपनी के पंजीकत कार्यालय भखण्ड

73-74. फेज- ।।।. औद्योगिक क्षेत्र. धारूहेडा. जिला-रेवाडी-123106 में आयोजित होने के लिए अनसचित 50वीं वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन के संबंध में निर्गत सचना दिनांकित 1 नवंबर 2021 की निरंतरता में निर्गत किया जा रहा है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह नोट कर लें कि कंपनी की 50वीं एजीएम सूचना में सम्मिलित की जानेवाली मद सं 4 के विषय को निदेशक मण्डल द्वारा सोमवार 15 नवंबर 2021 को आयोजित की गई इसकी बैटक में विधिवत ढंग रं पारित कर दिया गया था तथा इस प्रकार मद सं. 3 के उपरान्त मद सं. 4 को 50वीं एजीएम दिनांकित 1 नवंबर 2021 की सचना में सम्मिलित किया जाना है।

50वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का एक शुद्धिपत्र उन समस्त अंशधारकों को प्रेषित कर दिया गया है, जिन्हें वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना प्रेषित की गई है। उक्त शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.rollatainers.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com ए www.nseindia.com पर भी उपलब्ध रहेगा।

एजीएम सचना में वर्णित समस्त विषयवस्त् / जानकारियां अपरिवर्तित रहेंगी। एजीएम सचना को इस शृद्धिपत्र की निरंत रता में इसके साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

दिनांक : 17.11.2021 स्थान : नई दिल्ली

उपधारा (८) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

पीयूष गुप्त पर्णकालिक निदेशव डीआईएन : 0339286

कृते रोलाटेनर्स लिमिटेब

फॉर्म आईएनसी-26 [कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] केंद्रीय सरकार के समझ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामलें में

बाईकेएम इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 149—152, फर्स्ट फ्लोर, एडमॉन्टन मॉल, दि ब्रिस्टल होटल, एम.जी. रोड, गुरूग्राम— 122002, हरियाणा में है के मामलें में

है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **हरियाणा** राज्य से दिल्ली की रा.रा.क्षे. में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेत् कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अन्तर्गत **बुधवार, 10** नवम्बर, 2021 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकुल, केंद्रीय सरकार के समझ कंपनी की संख्या बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

एतदद्वारा सामान्य जनता को सचित किया जाता

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सुवित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 149-152, फर्स्ट फ्लोर, एडमॉन्टन मॉल, दि ब्रिस्टल होटल, एम.जी. रोड, गुरूग्राम- 122002, हरियाणा पर मेजी जानी चाहिए।

कते और निदेशक मंडल की ओर से आईकेएम इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/-राहुल मलिक स्थानः गुरुग्राम विथिः 17.11.2021 निदेशक

DIN-00746630 डी-391, दिकेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड **टापाट्य** (पूर्व का इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड)

कॉर्पोरेट कार्यालय : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, 4था तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु-600 002

कब्जा सूचना (धारा 8(1) के तहत-अचल सम्पत्ति हेत्) जसा कि. अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पननिर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन । अधिनयम, 2002 (2002 का 54)। के तहत स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए एक मांग सुचना जारी की थी। चुंकि नीचे वर्णित कर्जदार निर्धारित समय के भीतर नीचे वर्णित राशि का भुगतान करने में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा अनसचित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अध्यधीन होगा। प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की

कर्जदार(रों)/जमानती(यों)	प्रतिभृत आस्ति का विवरण	मांग सूचना की	कब्जा कर
के नाम	(अचल सम्पत्ति)	तिथि तथा राशि	की तिथि
शाखाः बरन लैन नंबरः SEBARAN0209282 उधारकर्ताः 1. श्री राम प्रसाद बैरवा, 2. श्रीमती रामप्यारी,	खसरा नं. 826, आवास नं. 116, बैरवा मोहल्ला, ग्राम-मऊ ग्राम पंचायत मऊ पंचायत सिमित अंटा तहसील मंगरोल जिला बरन (राज.) में निवास वाली गैर-कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति की भूमि और भवन का समस्त भाग, माप क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट, उस पर सभी वर्तमान और भविष्य के अधिरचना के साथ, सीमाएं : उत्तरः सड़क, दक्षिणः घनश्याम बैरवा का घर, पूर्वः सड़क, पश्चिमः सड़क, उप-पंजीकरण जिला बरन (राजस्थान) एवं पंजीयन जिला बरन (राजस्थान) के भीतर स्थित। पृथ्वी से जुड़ी सभी इमारतों और संरचनाओं के साथ या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ी हुई, वर्तमान और भावी दोनों और उससे जुड़े सभी ईजमेंट/ममूल अधिकार।	16-06-2021 तथा रु. 3,31,374/-	12.11.2021
शाखाः बरन लैन नंबरः SEBARAN0187379 उधारकर्ताः 1. श्री बी राजेंद्र, 2. श्रीमती एच. उषा कोली, 3. श्री सी. बाबू लाल,	खसरा नंबर 826, मकान नंबर 86, क्षेत्रफल 2340 वर्ग फुट, सहरियो का मोहल्ला, गांव-मऊ ग्राम पंचायत सिमित अंटा, मंगरोल तालुक, बरन जिला, (राजस्थान) में निवास वाली गैर-कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति की भूमि और भवन का समस्त भाग, सीमाएं : उत्तरः रंगा नाइक; दक्षिणः पारा बाई; पूर्वः सोमला नाइक; पश्चिमः सड़क; माप : पूर्व से पश्चिम 60 फीट, उत्तर से दक्षिण 40 फीट, कुल = 2400 वर्ग फीट, कडूर पंजीकरण जिला चिक्कमगलूर के उप-पंजीकरण जिले के भीतर स्थित संपत्ति के ऋण समझौते-सह-बंधक के तहत	19-06-2021 तथा रु. 2,49,971/-	12.11.2021
शाखाः बरन लैन नंबरः SEBARAN0249606 उधारकर्ताः 1. श्री आर. राम्हेट, 2. श्रीमती आर. कमलेश बाई,	गैर-कृषि संपत्ति का वह सभी टुकड़ा और पार्सल आवासीय संपत्ति होने के कारण खसरा नंबर 273 का भाग, पट्टा संख्या 1002, संकल्प संख्या 03, माप क्षेत्र 2150 वर्ग फीट, महुआ गांव, भटवाड़ा, महुआ ग्राम पंचायत, समिति अंता पंचायत, मंगरोल तालुक, बरन जिला, राजस्थान 325215 में स्थित आवासीय सम्पत्ति गैर-कृषि सम्पत्ति का समस्त भाग, उस पर सभी वर्तमान और भविष्य के अधिरचना के साथ और सीमाएं : उत्तरः आम रास्ता; दक्षिणः श्री गोबरी लाल गुर्जर का घर; पूर्वः किशन गोप का घर; पश्चिमः श्री महावीर का घर; मापः क्षेत्रफल 2150 वर्ग फीट	19-06-2021 तथा रु. 4,96,874/-	12.11.2021
शाखाः बरन लैन नंबरः SEBARAN0213854 उधारकर्ताः 1. श्री आर. त्रिभुवन मीणा, 2. श्रीमती टी.संतोष बाई	गैर-कृषि आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 4860, खसरा संख्या 83, संकल्प संख्या 02, माप क्षेत्रफल 1872 वर्ग फीट/208 वर्ग गज, वार्ड संख्या 07, खानपुरिया गांव, मऊ तालुक, बरन जिला, राजस्थान - 325 215 में स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग, सभी वर्तमान और भावी के सुपर स्ट्रक्चर के साथ और सीमाएं : उत्तर : श्री धनपाल मीणा का मकान; दक्षिणः श्री बंसी लाल सेन का घर; पूर्वः श्री अमर लाल का घर; पश्चिमः आम रास्ता, श्री सरवन लाल का मकान; मापः 1872 वर्ग फीट / 208 वर्ग गज	16-06-2021 तथा रु. 4,61,799/-	12.11.2021

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड • संपर्क पताः 7वां तल, वीडियोकोन टॉवर, झण्डेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, भारत TATA प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पित्तयों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित

प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत एतदद्वारा एक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित बाध्यताकारी/विधिक प्रतिनिधि/कानूनी वारिस (उधारकर्तागण) टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएफएसएल) से प्राप्त

किए गए मूलधन, ब्याज एवं अन्य प्रभारों के साथ, का प्रतिभुगतान करने में चुक कर चुके हैं। निम्न वर्णित ऋण खातों को टीसीएफएसएल की देयताओं का प्रतिभुगतान करने में चुक के अनुपालन में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिष्पादनीय परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। टीसीएफएसएल अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से वित्तीय परिसम्पित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुपालन के अंतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन, निम्न वर्णित संवैधानिक सूचनाएं निर्गत कर चुकी है, जिनमें यानी कि सूचनाओं में उधारकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति के 60 दिवसों के अंदर भावी ब्याज एवं लागतों के साथ उक्त बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया था, भुगतान करने में विफल होने पर टीसीएफएसएल जो है वो निम्न विवरणित सम्पत्तियों पर टीसीएफएसएल के पक्ष में उधारकर्ताओं द्वारा सुजित प्रतिभूत हित

क्र सं.	ऋण खाता सं.	बाध्यताधारक(कों) / कानूनी वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचना तिथि एनपीए तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाय राशि
1	21765193 & 21765863	1. मै. अजय बेवरेजेज प्रा. लि. अपने निदेशकों के माध्यम से खसरा सं. 363 ग्राम घुरू का पुरवा चिनहट, लखनऊ 226019 यहां पर भी: सी—1/188, विक्रांत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226010 2. अभय कुमार सिंह सी—1/188, विक्रांत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226010 यहां पर भी: खसरा सं. 363 ग्राम घुरू का पुरवा चिनहट, लखनऊ 226019 3. अक्षय सिंह सी—1/188, विक्रांत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226010 यहां पर भी: खसरा सं. 363 ग्राम घुरू का पुरवा चिनहट, लखनऊ 226019 4. कंचन यादव सी—1/188, विक्रांत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226010 यहां पर भी: 18/628/एफ, सेक्टर 18, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226016	26-10-2021 03-10-2021	Rs. 1,90,98,177/-

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विवरण — सम्पत्ति सं. 1 एक आवासीय भूखण्ड संख्या सी–1/188, क्षेत्र अधिमापन 183.47 वर्ग मीटर, जो विक्रांत खण्ड, गोमती नगर, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, अधिक विशिष्ट रूप में जो विक्रय विलेख में विवरणित है जिसका पंजीकरण 05.04.2014 को हुआ था तथा जिसे उप–रजिस्ट्रार (।।) लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में अभय कुमार सिंह, कंचन यादव एवं अक्षय सिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया था। **चौहद्दी निम्नानुसार :** पूर्व – भूखण्ड सं. —1/211 एवं 1/210, पश्चिम — 9 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर — भूखण्ड सं. 1/187, दक्षिण — भूखण्ड सं. 1/189 एवं 1/210

सम्पत्ति सं. 2 एक भूखण्ड खसरा संख्या 511 का. मिनजूमला क्षेत्र मापन 2000 वर्ग फूट अर्थात् 185.873 वर्ग मीटर, जो जगूआर, परगना एवं तहसील एवं जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, अधिक विशिष्ट रूप में जो विक्रय विलेख में विवरणित है जिसका पंजीकरण 12.01.2018 को हुआ था तथा जिसे उप–रजिस्ट्रार (।।) सदर लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में अभय कुमार सिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया था। **चौहददी निम्नानुसार :** पूर्व – सड़क 27 फूट चौड़ी एवं खसरा सं. 490 का भाग, पश्चिम – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण – रमेश चौबे का भुखण्ड

64 (4)	ř.	1. श्री विजय नारायण मिश्रा, 99 एमआईजी, बर्रा—5, कानपुर, उत्तर प्रदेश—208027, यहां पर भी : मकान संख्या	T
	143, 144, ई.डब्ल्यू,एस., वरुण विहार, बर्रा ८, बर्रा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश—208027	1	
Т		2. मै. मिश्रा ट्रेडर्स, अपने स्वामी के माध्यम से, 845, राम असारे नगर, पीला पुर रोड, गोविंद नगर, कानपुर नगर	1
Т	20765364	उत्तर प्रदेश–208006, यहां पर भी : 99 एमआईजी, बर्रा–5, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208027,	d
-13	2 &	3. गीता देवी मिश्रा उर्फ गीता देवी मकान संख्या 143, 144, ई.डब्ल्यू.एस., वरुण विहार, बर्रा 8, बर्रा, कानपुर नगर 29.10.202	il
8920183	उत्तर प्रदेश–208027, यहां पर भी : मकान संख्या 103, ई.डब्ल्यू.एस., वरुण विहार, बर्रा 8, बर्रा, कानपुर नगर	1	
Т		उत्तर प्रदेश–208027	1
Т		४. नवनीत मिश्रा, मकान संख्या १४३, १४४, ई.डब्ल्यू.एस., वरुण विहार, बर्रा ८, बर्रा, कानपुर नगर, उत्तर	1
П		प्रदेश-208027	1

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विवरण — सम्पत्ति संख्या 1.: मकान संख्या 142, क्षेत्र अधिमापन 25.20 वर्ग मीटर, जो ई.डब्ल्यू.एस. योजना, वरुण विहार, कानपूर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, अधिक विशिष्ट रूप में जो विक्रय विलेख दिनांकित 28.04.2011 में विवरणित है, जो गीता देवी के पक्ष में निष्पादित किया गया था। **चौहददी निम्नानुसार :** पूर्व — मकान संख्या 143, पश्चिम — मकान संख्या 141, उत्तर — ६ मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण — मकान संख्या 153, मकान संख्या 143, क्षेत्र अधिमापन 25.20 वर्ग मीटर, ई.डब्ल्यू.एस. योजना, वरुण विहार, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, अधिक विशिष्ट रूप में विक्रय विलेख दिनांकित 10.08.2010 में विवरणित, गीता देवी के पक्ष में निष्पादित। **चौहद्दी निम्नानुसारः** पूर्व — मकान संख्या 144, पश्चिम — मकान संख्या 142, उत्तर — 6 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण – के.डी.ए. कॉलोनी मकान संख्या 144, क्षेत्र अधिमापन 25.20 वर्ग मीटर, ई.डब्ल्यू.एस. योजना, वरुण विहार, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, अधिक विशिष्ट रूप में विक्रय विलेख दिनांकित 10.08.2010 में विवरणित, गीता देवी के पक्ष में निष्पादित। **चौहददी निम्नानुसार** : पूर्व – भूखण्ड संख्या 145,

पश्चिम – भूखण्ड संख्या 143, उत्तर – 6 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण – के.डी.ए. कॉलोनी सम्पत्ति संख्या २: मकान संख्या ९९ का दक्षिणी हिस्सा, क्षेत्र अधिमापन ८१ वर्ग मीटर, एम.आई.जी., ब्लॉक संख्या ५(पार्ट), योजना बर्रा जो कि बर्रा ५, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, अधिक विशिष्ट रूप में विक्रय विलेख दिनांकित 03.10.2015 में विवरणित, जो गीता देवी के पक्ष में निष्पादित है। **चौहददी**

ऊपर वर्णित मांग सूचनाओं की प्रभावशाली सेवा सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना द्वारा उक्त सूचनाओं को पढ़कर अमल में लाए जाने की सेवा कर रहे हैं। उपर्युक्त उधारकर्ताओं को एतदद्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत ऊपर वर्णित भुगतान दायित्वों का इस सूचना प्राप्ति के 60 दिवसों के अंदर निर्वहन करने को कहते हैं। भुगतान दायित्वों का निर्वहन करने में विफल होने पर टीसीएफएसएल अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त अथवा किसी अधिकार का प्रयोग करेगी। प्रासंगिकता के साथ, उधारकर्ताओं को अधिनियम की धारा 13(13) के नियमों के अनुसार यह भी सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पित्तियों का विक्रय, पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

www.readwhere.com

कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किया

धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

Whereas.

60 days from the date of receipt of the notice.

November 2021.

yds.

DELHI.

South: Other's Plot.

DATED: 16,11.2021

प्राधिकत अधिकारी

Rs. 63,39,996/-

निम्नानुसार : पर्व – मकान संख्या ९९ का भाग, पश्चिम – ९ मीटर सडक, उत्तर – ९ मीटर सडक, दक्षिण – मकान संख्या १००

स्थान : उत्तर प्रदेश दिनांक : 18.11. 2021

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेंज लिमिटेड